

— प्रेस नोट —

जनपद – मीरजापुर

दिनांक- 14.01.2021

## थाना को0 कटरा पुलिस द्वारा चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 13.01.2021 को उ0नि0 जितेन्द्र सरोज चौकी प्रभारी मुकेरी बाजार थाना को0 कटरा मय हमराह उ0नि0 उमा शंकर गिरी के साथ क्षेत्र में देखभाल व गश्त/चेकिंग में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि पुतली घर के पास दो व्यक्ति चोरी की दो मोटरसाइकिलों के साथ खड़े है शायद किसी का इंतजार कर रहे है प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0 कटरा पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर दबिश देकर दो व्यक्तियों को दो मोटरसाइकिलों सहित समय 19.35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । जिनसे नाम पता पूछने पर दोनो ने अपना-अपना नाम व पता क्रमशः 1- दीपक कुमार पुत्र कमलाशंकर निवासी बिरोही थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर, 2- संतोष पुत्र बाबूलाल निवासी बिरोही थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर बताया। मोटरसाइकिलो के संबंध में कड़ाई से पूछताछ में उन्होने बताया कि दोनो मोटर साइकिलों को अलग-अलग स्थानो से चोरी किया है जिसे बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे थे कि पकड़ लिए गए । उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0 कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

### विवरण बरमादगी

- 1- पल्सर मोटर साईकिल काला कलर – संख्या-UP 70टी 5386,
- 2-होण्डा साइन काला कलर संख्या-.इंजन नं0- ZC36E2518156.

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. \दीपक कुमार पुत्र कमलाशंकर निवासी बिरोही थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर।
2. संतोष पुत्र बाबूलाल निवासी बिरोही थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर।

### गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

स्थान- पुतली घर के सामने, दिनांक 13.01.2021 समय 19.35 बजे ।

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सरोज चौकी प्रभारी मुकेरी बाजार थाना को0 कटरा मीरजापुर ।
2. उ0नि0 उमाशंकर गिरी थाना को0 कटरा मीरजापुर ।
3. का0 दारा यादव थाना को0 कटरा मीरजापुर ।
4. का0 शिव कुमार मौर्या थाना को0 कटरा मीरजापुर ।
5. का0 महताब थाना को0 कटरा मीरजापुर ।



**ई फोरेंसिज सहायता अनुग्रह धनराशि**

१) फोरेंसिकी (सीसा पर आगम किटी आगु वायु आगमन से सम्बन्धित) लैबरी/मैट्रिक्स/मैट्रिक्स में "ब्लैक" अनुसंधान/सिमुलेशन में सहायता।

२) फोरेंसिकी (सीसा पर आगम किटी आगु वायु आगमन से सम्बन्धित) लैबरी/मैट्रिक्स/मैट्रिक्स में "ब्लैक" अनुसंधान/सिमुलेशन में सहायता।

३) फोरेंसिकी (सीसा पर आगम किटी आगु वायु आगमन से सम्बन्धित) लैबरी/मैट्रिक्स/मैट्रिक्स में "ब्लैक" अनुसंधान/सिमुलेशन में सहायता।

४) फोरेंसिकी (सीसा पर आगम किटी आगु वायु आगमन से सम्बन्धित) लैबरी/मैट्रिक्स/मैट्रिक्स में "ब्लैक" अनुसंधान/सिमुलेशन में सहायता।

वर्तमान धनराशि
₹ 10,00,000/-
₹ 8,00,000/-
₹ 2,00,000/-

धन पर सेवाग्राहियों को देने पर है।

वर्तमान धनराशि
₹ 9,000/-
₹ 25,000/-
₹ 30,000/-
₹ 75,000/-

टीका/परामर्शदात्री।  
सहायता/परामर्शदात्री।

वर्तमान धनराशि
₹ 15,000/-
₹ 25,000/-
₹ 30,000/-
₹ 60,000/-
₹ 1,00,000/-

५) शिक्षा:-

वर्तमान धनराशि
₹ 15,000/-
₹ 25,000/-
₹ 30,000/-
₹ 60,000/-
₹ 1,00,000/-

६) टीका/परामर्शदात्री।

वर्तमान धनराशि
₹ 20,000/-

७) टीका/परामर्शदात्री।

वर्तमान धनराशि
₹ 20,000/-